



BHARAT SEATS LIMITED

Plot No.1, Maruti Udyog Joint Venture Complex, Gurugram-122015 (Haryana) India
Phones : +91-9643339870-74 E-mail:seats@bharatseats.net
CIN: L34300DL1986PLC023540 WEBSITE: www.bharatseats.com

November 06, 2025

BSE Limited Corporate Relationship Department PJ Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 523229	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Trading Symbol: BHARATSE
--	---

Subject: Submission of published results under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copy of the Unaudited Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2025 published in newspapers on November 06, 2025 viz. Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper), which were duly approved in the meeting of the Board of Directors held on November 05, 2025.

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Bharat Seats Limited

Ritu Bakshi
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F3401

Encl.: As Above

A PUBLIC INVIT TO FOLLOW

Next NHAI InvIT by month-end, to target ₹8,000-crore mop-up

MUKESH JAGOTA
New Delhi, November 5

THE BIDDING PROCESS for the fifth round of monetisation through infrastructure investment trust (InvIT) route by the National Highways Authority of India (NHA) will start by the end of this month.


The process may yield ₹7,000-8,000 crore to the NHA. Following the completion of this round, the work will begin for another round of monetisation through InvIT mode but this time through public InvIT.

The fifth round will be conducted through private InvIT — the National Highways Infrastructure Trust (NHIT) — sponsored by NHA.

The two biggest investors in the NHIT are Canadian funds — Ontario Teachers Pension Plan Board and Canadian Pension Plan Investment Board Private Holdings — holding 25% units each.

Unit holders other than NHA and Canadian funds are mutual funds, pension funds,

GROWTH PATH



Employee Pension Fund Organisation (EPFO) and state government funds.

The money raised through round five of InvIT will be half of what has been raised through this route in the past three financial years.

In 2024-25, the NHIT had acquired 821 km of highways from NHA after an upfront payment of ₹17,738 crore.

Debentures (NCD). The debentures have performed well in the market and are giving an effective return of 8.01%.

Details of the public InvIT are being worked out and it is expected that its sponsor too will be NHA. Other anchor investors and details are being worked out by the government.

Through public InvIT, the government wants to give retail investors access to infrastructure assets that provide reliable returns over a long period of time. It will also develop a competitive environment in the InvIT market, and mitigate the risk of a limited investor base.

So far 2,345 km of road assets have been monetised through InvIT to raise ₹43,638 crore. In the fifth round that will begin in the next few weeks, NHA has identified nine road stretches with a total length of over ₹550 km for monetisation. The road assets that will be monetised are in Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal.

Structural challenges impacting MSME productivity: Deloitte

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 5

MICRO, SMALL AND medium enterprises (MSMEs) in India are facing structural challenges like limited access to formal credit, which is impairing their productivity, but their digital readiness remains a bright spot, a Deloitte India report said on Wednesday.

MSMEs in India contribute nearly 30% to GDP, and account for 45% of exports and provide livelihoods to more than 240 million people.

The study shows that despite exhibiting a significantly higher degree of digital readiness than OECD peers, Indian MSMEs operate at just 18% of large-enterprise productivity compared with 45-70% in OECD economies. This gap limits their competitiveness compared to global counterparts.

Deloitte India economist Rumki Majumdar said the MSME space is marred by several structural challenges, including limited access to formal credit, outdated technology, regulatory complexity and



infrastructure bottlenecks.

The credit gap is estimated at ₹30 lakh crore of total demand. It is higher for services (27%) and women-owned MSMEs (35%), with their severe implications on scaling opportunities.

The intensity of challenges becomes more pronounced in non-metro regions, where these enterprises are concentrated, she added.

According to 'Deloitte's MSME challenge index', MSMEs in sectors such as readymade garments face severe credit constraints because of the high perceived risks associated with the sector, characterised by low margins and intense global competition, making their products highly substitutable.

Govt panel working on new SEZ norms for exporters

RAVI DUTTA MISHRA
New Delhi, November 5

A GOVERNMENT PANEL, comprising officials from the commerce and industry ministry, NITI Aayog, as well as exporters, are working on new Special Economic Zones (SEZs) norms aimed at boosting manufacturing and helping exporters leverage the domestic market amid steep US tariffs that have hurt production, a person aware of the development told *The Indian Express*.

This comes after multiple units in the SEZs, particularly those which entirely cater to the US market, have written to the commerce ministry seeking that they be de-notified due to sudden tariff pressure that has left exports uncompetitive in the US market.

However, exporters, till now, have tried to hold on to the US market even by bearing losses. SEZs enjoy various tax benefits, including duty-free imports and domestic procurement.

Official data showed that India's exports from SEZs in FY25 stood at \$172 billion from nearly 276 units in the country, and the domestic sales comprised 2% of the



total production. However, Indian SEZs have lagged over the years, especially compared with Chinese special economic zones that transformed manufacturing in the neighbouring country.

Against the backdrop of the US tariffs, exporters have been seeking a 'reverse job work' policy that would allow units in the SEZ to perform work for the domestic market.

The long-standing demand by exporters to allow reverse job work is also aimed at improving the efficiency of the SEZ units, as exporters have argued that due to the seasonality in export demand, labour and equipment capacity in SEZs are often not optimally utilised.

"Reverse job work should

not be a problem. Concerns are there on the principle of duty exemption on the inputs because it has to be fair to the domestic industry as well.

The domestic industry is paying duty on the capital goods, and SEZs are not. If both (SEZs and domestic units) are paying duty on the inputs only, then you are at a disadvantage.

So we are discussing that some factoring needs to be done so that it is fair to the domestic units," the source quoted above said.

An official told *The Indian Express* that, instead of the long-pending SEZ bill, other faster routes are being explored to implement the changes in the SEZs and aid exporters facing pressure due to US tariffs. However, the Finance Ministry has yet to give a go-ahead due to revenue concerns.

Among the sectors pushing the most for SEZ reforms is the gems and jewellery industry, as nearly 65% of India's studied jewellery exports originate from SEZ units. Exports of gems and jewellery are at risk of being the hardest hit due to the US tariffs, as the US is the largest destination for the commodity.

Time for India to have gold policy: Study

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 5

AS GOLD PRICES soar to new heights, a study on Wednesday made a case for a comprehensive policy for the yellow metal as India is one of the world's largest bullion markets, influenced by a cultural affinity for the shiny metal and investment demand.

Gold price has been reaching new heights driven by geo-political tensions, economic uncertainty, and a weakening US dollar, said the report titled 'Coming Of (A Turbulent) Age: The Great Global Gold Rush' by the State Bank of India's Economic Research Department.

JSL JINDAL STAINLESS

Jindal Stainless Limited

CIN: L26922HR1980PLC010901

Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar - 125 005 (Haryana), Ph. No. (01662) 222471-83

Email Id. for Investors: investorcare@jindalstainless.com, Website: www.jindalstainless.com

PUBLIC NOTICE - LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) are reported to have been lost. The company will proceed to issue duplicate certificate(s) in respect of these shares, if no valid objection is received within 7 days from the date of publication of this notice.

Equity Shares of Face Value of Rs. 2/- each of Jindal Stainless Limited:

Folio No.	Name of Shareholder(s)	Certificate No.	Distinctive numbers	No. of shares
38385	R. Sethuraman	429839	59830636-59830910	275
22423	Jayen Prabhu Chandrakant Mistry	429608	58549151-58550680	1530
414713	Jyotsna Jayenprabhu Mistry	402719	75769201-75769395	195
38385	Kishore Ratansay Mankerni	501385	75769396-75769470	75
61549	Rajni Kishore Mankerni	501385	75769396-75769470	75
61549	Pankaj Goyal	412174	62668011-62668230	220
22142	Shankaral Sureka	430185-430196	58387221-58395945	8725

Old Equity shares of Face Value of Rs.10/- each of Jindal Stainless Limited (issued upto 9.3.2004):

Folio No.	Name of Shareholder(s)	Certificate No.	Distinctive numbers	No. of shares
45442	Jayantilal Haridas Lakhani	209519	21123216-21123223	8
401972	Kumud J. Lakhani	216648	21971906-21972000	15
54556	Padma Khaitan	207347	21207316-21207345	30
	Sunil Kamalakar Kene	207347	21207316-21207345	30

for Jindal Stainless Limited Sd/- Navneet Raghuvanshi Company Secretary

Date: November 4, 2025
Place: Delhi

India-Japan partnership enhances stability in Indo-Pacific: Jaishankar

THE INDIA-JAPAN PARTNER-SHIP enhances the strategic stability in the Indo-Pacific region and contributes to economic growth at the global level, External Affairs

Minister S Jaishankar said on Wednesday. Jaishankar said maintaining a "free and open" Indo-Pacific is a stronger imperative but also a more complex challenge. —PTI

ongc ओएनजीसी ONGC ONGC

ENERGY Now AND Next

Regd. Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
CIN: L74899DL1993GOI054155
Website: www.ongcindia.com, E-mail: secretariat@ongc.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

NOTICE is hereby given that the equity Share Certificate(s) of the following shareholder(s) have been reported as lost/ misplaced and they have applied for issuance of duplicate Share Certificate(s):

Name of Share Holder	Folio No.	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive No.
Ronjoy Bairagi & Deepa Bairagi	89070	1836	1045	170797-172632
		1836	476206	4277915857-4277917692
		1836	973372	8556781162-8556782997
		5508		

Any person(s) who has/have any claim in respect of the said certificate(s) can lodge such claim with the supporting documents with the Company within 7 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained by the Company.

Further, public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above-mentioned share certificate(s). Any person dealing with the above share certificate(s) shall be doing so, solely at his/ her risk as to costs and consequences, the Company shall in no way be held responsible for such dealing(s).

For Oil and Natural Gas Corporation Ltd.
Sd/-
(Shashi Bhushan Singh)
Compliance Officer

New Delhi
04.11.2025

IRCON INTERNATIONAL LTD. NAVRATNA COMPANY (A Govt. of India Undertaking)

Regd. Office : C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017, INDIA
Tel. No. : +91-11-26530266 Fax: +91-11-26854000, Web: www.ircon.org, E-mail: investors@ircon.org
CIN : L45203DL1976GOI008171

3rd REMINDER NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR RE-LODGE OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In reference to our newspaper advertisement published on 15th September, 2025, it is again brought to the notice of Shareholders that in terms of SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PICIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, a special window has been opened for re-lodgement of transfer requests of Physical Shares which is applicable to the Transfer Deeds lodged prior to 1st April, 2019 that were rejected/ returned/not attended to due to deficiency in the documents/process or otherwise. The re-lodgement window is already open from 7th July, 2025 and shall remain open till 6th January, 2026 and all such transfers shall be processed and would be credited to the transferee(s) in demat mode only.

Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, Contact: +91-11-42541234, +91-11-42541957, E-mail id: rta@alankit.com

100-DAYS CAMPAIGN - "SAKSHAM NIVESHAK"

The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), under the MCA has launched a nationwide 100-days campaign titled "Saksham Niveshak", from 28th July, 2025 to 6th November, 2025, for enhancing investor awareness and facilitating the recovery of unclaimed dividends and shares. The shareholders of the Company are requested to update their KYC details, e-mail addresses, bank mandates, and contact information, including registration of email addresses, within the campaign period to ensure timely and effective communication from the Company. This will enable the Company to make future payments of dividends to the rightful claimant directly, avoiding transfer of any unclaimed amount to IEPF Authority. Shareholders are requested to update their details including KYC in the manner given hereunder:

1. **Shares held in physical form**- By submitting Investor Service Request Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-1, SH-14) supported by self-attested copies of PAN, Aadhaar, latest Address proof and original cancelled cheque of bank account, through any of the following modes:
 - a. **By Post**: Send self-attested, dated physical copies of documents/forms to the RTA of the Company i.e., Alankit Assignments Limited, 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055.
 - b. **By Email**: From your registered E-mail ID, with digitally signed documents to: rta@alankit.comShareholder can download these forms from the website of RTA <https://alankitassignments.com/investor-chartar/>
2. **Shares in demat form**- By contacting their respective Depository Participants (DPs) to update their KYC details and intimating the updated details to the RTA of the Company.

In case of any queries or further assistance, shareholders may reach out to the Company or RTA at the address mentioned above.

For IRCON International Limited Sd/- Pratibha Aggarwal Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 04th November, 2025

BHARAT SEATS LIMITED

CIN: L34300DL1986PLC023540

Regd. Office : 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi- 110070

WEBSITE: www.bharatseats.com; E-mail: seats@bharatseats.net, Phone: +91 9643339870-74

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(Rs. in lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Total Income from Operations	46,129.81	42,812.79	29,137.47	88,942.60	59,117.50	129,241.04
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,329.01	1,234.22	959.18	2,563.23	1,848.04	4,389.61
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,329.01	1,234.22	959.18	2,563.23	1,848.04	4,389.61
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	990.18	917.59	710.37	1,907.77	1,371.84	3,270.03
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	991.55	918.96	706.14	1,910.51	1,363.43	3,275.03
6	Equity Share Capital	1,256.00	1,256.00	628.00	1,256.00	628.00	1,256.00
7	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the year	-	-	-	-	-	18,199.27
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (In Rs.)						
(a)	Basic (Rs.)	1.58	1.46	1.13	3.04	2.18	5.21
(b)	Diluted (Rs.)	1.58	1.46	1.13	3.04	2.18	5.21

Additional Information on Financials Results:

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Net Worth (in Lakhs)	20,674.98	20,374.23	17,543.67	20,674.98	17,543.67	19,455.27
2	Outstanding Debt (in Lakhs)	5,997.41	5,975.49	9,452.23	5,997.41	9,452.23	7,993.35
3	Debt Equity Ratio (in times)	0.64	0.65	0.96	0.64	0.96	0.78
4	Debt Service Coverage Ratio (in times)	3.32	3.31	3.91	3.31	3.85	2.39
5	Interest Service Coverage Ratio (in times)	8.48	9.10	8.09	8.76	7.96	8.87

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s), www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website 'www.bharatseats.com'.

b) The above financial results of Bharat Seats Limited ("the Company") have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

c) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 5th November, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(ROHIT RELAN)
Chairman and Managing Director

Place: Gurugram
Date: November 05, 2025

www.igi.org

INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE (INDIA) LIMITED

CIN: L46591MH1999PLC118476

Registered Office: 702, 7th Floor, The Capital, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051, Maharashtra, India.

Email: investor.relations@igi.org | Website: www.igi.org

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(Amounts in INR millions, unless otherwise stated)

Particulars	Standalone					
	Quarter ended September 30, 2025	Corresponding quarter ended June 30, 2025	Quarter ended September 30, 2024	Nine months ended September 30, 2025	Nine months ended September 30, 2024	Year ended December 31, 2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	2523.50	2,486.41	1,940.44	7,453.78	6,183.79	8,165.23
Net Profit for the period/ year (before tax)	1,824.58	1,807.88	1,433.40	5,508.82	4,430.38	5,868.27
Net Profit for the period/ year (after tax)	1,391.27	1,374.80	1,078.07	4,157.50	3,294.26	4,392.49
Total Comprehensive income for the period/ year (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	1,389.61	1,371.46	1,062.06	4,149.10	3,265.12	4,378.89
Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2 per share)	864.32	864.32	793.57	864.32	793.57	864.32
Reserves excluding revaluation reserve as at Balance Sheet date						21,010.56
Earning per share:						
1. Basic (in ₹) (not annualised)	3.22	3.18	2.72	9.62	8.31	11.04
2. Diluted (in ₹) (not annualised)	3.11	3.06	2.72	9.24	8.31	10.57

(Amounts in INR millions, unless otherwise stated)

Particulars	Consolidate					
	Quarter ended September 30, 2025	Corresponding quarter ended June 30, 2025	Quarter ended September 30, 2024	Nine months ended September 30, 2025	Nine months ended September 30, 2024	Year ended December 31, 2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	3,162.08	3,146.13	2,586.95	9,440.36	8,116.18	10,884.92
Net Profit for the period/ year (before tax)	1,754.85	1,749.69	1,474.56	5,419.27	4,325.41	5,853.20
Net Profit for the period/ year (after tax)	1,297.93	1,265.32	1,095.99	3,970.51	3,135.15	4,272.90
Total Comprehensive income for the period/ year (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	1,375.39	1,341.76	1,249.61	4,169.03	3,213.24	4,336.18
Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2 per share)	864.32	864.32	793.57	864.32	793.57	864.32
Reserves excluding revaluation reserve as at Balance Sheet date						9,763.17
Earning per share:						
1. Basic (in ₹) (not annualised)	3.00	2.92	2.76	9.19	7.90	10.74
2. Diluted (in ₹) (not annualised)	2.91	2.81	2.76	8.85	7.90	10.28

Notes:



1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Reports) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ nine months Financial Results are available on Stock Exchange websites.
2. The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended September 30, 2025 have been duly reviewed by Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors at its meeting held on November 5, 2025
3. Figures for the previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to conform to current periods classification.

November 5, 2025
Mumbai

By order of the Board
Sd/-
Tehmasp Printer
(Managing Director & CEO)

<div></div> <div>AXIS FINANCE LIMITED</div> <div><small>Axis Finance is a subsidiary of Axis Bank Limited. Axis Bank Limited is a company incorporated in India under the Companies Act, 1956 and is listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange of India.</small></div>																									
<p>ई-सार्वजनिक नीलामी-रह-निष्ठी सूचना</p> <p>ई वित्तीय आसित्यों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अप्रचल आसित्यों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 8(1) के प्रावधान के साथ पठित।</p> <p>अब हमारा और विवरण रूप से व्याख्याकर्ता/नियमित, गारंटर/गारंटरों और बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सामान्य संर्चनाओं, जो सुरक्षित लेनदार के पास स्थित हैं/प्रवाहित हैं, जिसका नीतिगत कर्मान एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति कर्ता द्वारा ले लिया गया है, उन्हें 24 नवंबर, 2025 को रुपये की वसूली के लिए "जहां है जहां है", "जो है जहां है" और "जो कुछ भी है" और "जिना बिक्री संरचना के आधार पर" देना जाएगा। 5 नवंबर, 2025 तक 68,72,119/- (रुपये छहसठ लाख हजार हजार एक की अठ्ठावन सौ) (एकसौ अठ्ठविंशति की वारा 13(2) के तहत जारी 28 जुन, 2024 की मांग सूचना की स्थिति तक की चर्च - र. 59,87,230/- (रुपये पचास लाख सड़सठ हजार दो की तीस सौ) सविशेषक दूरी पर वितरित व्याज, फुल/दंडात्मक व्याज और अन्य वसूल आदि के साथ, व्याख्याकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर, अवर्ती (1) वित्तिय मोचन (2) स्टोन एज (3) काला देवी (चिन्हें आगे सामुहिक रूप से "उद्यमकर्ता" कहा जाएगा) से अंतिम भुगतान/वसूली तक परिपूर्णताओं का विवरण, अक्षरक्ष मुच्य (आपरी), बयाना राशि जमा (हैपकी) और बिक्री का विवरण नीचे दिया गया है:</p>																									
<p>अनुसूची – I</p> <table> <tr> <th>अचल प्रतिभूति संंपत्ति का विवरण</th><th>अनुसूची – I के अनुसार तिथि: 24.11.2025</th></tr> <tr> <td>संपत्ति का विवरण – संपत्ति का यह पूरा दस्तावेज, "प्लॉट संख्या 82-83, दूसरी मंजिल (फैमा प्रत और 198 की) पॉकेट 14, सैक्टर – 22, रोडिंगी, सी-ब्लॉक, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दिल्ली – 110086, जिसका क्षेत्रफल 761 वर्ग फुट है और जिसकी सीमा निम्नानुसार है: उत्तर-पूर्व: प्लॉट संख्या 84 पश्चिम: प्लॉट संख्या 81 उत्तर-पूर: प्लॉट संख्या 87 और 86</td><td>समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न</td></tr> </table>	अचल प्रतिभूति संंपत्ति का विवरण	अनुसूची – I के अनुसार तिथि: 24.11.2025	संपत्ति का विवरण – संपत्ति का यह पूरा दस्तावेज, "प्लॉट संख्या 82-83, दूसरी मंजिल (फैमा प्रत और 198 की) पॉकेट 14, सैक्टर – 22, रोडिंगी, सी-ब्लॉक, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दिल्ली – 110086, जिसका क्षेत्रफल 761 वर्ग फुट है और जिसकी सीमा निम्नानुसार है: उत्तर-पूर्व: प्लॉट संख्या 84 पश्चिम: प्लॉट संख्या 81 उत्तर-पूर: प्लॉट संख्या 87 और 86	समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न																					
अचल प्रतिभूति संंपत्ति का विवरण	अनुसूची – I के अनुसार तिथि: 24.11.2025																								
संपत्ति का विवरण – संपत्ति का यह पूरा दस्तावेज, "प्लॉट संख्या 82-83, दूसरी मंजिल (फैमा प्रत और 198 की) पॉकेट 14, सैक्टर – 22, रोडिंगी, सी-ब्लॉक, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, दिल्ली – 110086, जिसका क्षेत्रफल 761 वर्ग फुट है और जिसकी सीमा निम्नानुसार है: उत्तर-पूर्व: प्लॉट संख्या 84 पश्चिम: प्लॉट संख्या 81 उत्तर-पूर: प्लॉट संख्या 87 और 86	समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न																								
<p>अनुसूची – II</p> <p>ई-नीलामी का विवरण</p> <table> <tr> <th>संपत्ति/ओं का विवरण</th><th>अनुसूची – I के अनुसार तिथि: 24.11.2025</th></tr> <tr> <td>ई-नीलामी की स्थिति एवं समय</td><td>समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न</td></tr> <tr> <td>मौली प्रस्तुत करने की स्थिति और समय</td><td>दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न</td></tr> <tr> <td>आरंभिक मूल्या: 46,12,396/- (रुपये) (केवल चिप्यालीस लाख बाराह हजार तीन की चिप्यानें रुपये)</td><td></td></tr> <tr> <td>* यह मूल्या जिसके नीचे परत/संपत्ति/संपत्तियां नहीं बेची जाएगी</td><td></td></tr> <tr> <td>बयाना राशि जमा (आपरी का 10%/र. 4,61,240/- (रुपये चार लाख इकसठ हजार दो की चालीस रुपये मात्र)</td><td></td></tr> <tr> <td>मौली वृद्धि रकम: 1,00,000/- (रुपये) (एक लाख रुपये मात्र)</td><td></td></tr> <tr> <td>सौदा याति का विवरण और मोबाइल नम्बर की सार्वकिक कमाई, मोबाइल: 7982902266</td><td></td></tr> <tr> <td>बिक्री के विस्तृत नियमों और कर्ता के लिए, कृपया हमारे अधिकृत ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स इन्फोलेज टैक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल अवगीत https://auction.infolarge.com और www.axisfinance.in पर दिए गए संिक का संदर्भ ले:</td><td></td></tr> <tr> <td>प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिवसीय बिक्री नोटिस।</td><td></td></tr> <tr> <td>इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत एक ऋण के व्याख्याकर्ता/ओं, गारंटर/ओं और बंधककर्ता/ओं को उपयुक्त स्थिति पर ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में नोटिस के रूप में देना जा सकता है।</td><td></td></tr> <tr> <td>दिनांक: 05 नवम्बर 2025, स्थान: नई दिल्ली</td><td>प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड</td></tr> </table>	संपत्ति/ओं का विवरण	अनुसूची – I के अनुसार तिथि: 24.11.2025	ई-नीलामी की स्थिति एवं समय	समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न	मौली प्रस्तुत करने की स्थिति और समय	दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न	आरंभिक मूल्या: 46,12,396/- (रुपये) (केवल चिप्यालीस लाख बाराह हजार तीन की चिप्यानें रुपये)		* यह मूल्या जिसके नीचे परत/संपत्ति/संपत्तियां नहीं बेची जाएगी		बयाना राशि जमा (आपरी का 10%/र. 4,61,240/- (रुपये चार लाख इकसठ हजार दो की चालीस रुपये मात्र)		मौली वृद्धि रकम: 1,00,000/- (रुपये) (एक लाख रुपये मात्र)		सौदा याति का विवरण और मोबाइल नम्बर की सार्वकिक कमाई, मोबाइल: 7982902266		बिक्री के विस्तृत नियमों और कर्ता के लिए, कृपया हमारे अधिकृत ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स इन्फोलेज टैक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल अवगीत https://auction.infolarge.com और www.axisfinance.in पर दिए गए संिक का संदर्भ ले:		प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिवसीय बिक्री नोटिस।		इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत एक ऋण के व्याख्याकर्ता/ओं, गारंटर/ओं और बंधककर्ता/ओं को उपयुक्त स्थिति पर ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में नोटिस के रूप में देना जा सकता है।		दिनांक: 05 नवम्बर 2025, स्थान: नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड	
संपत्ति/ओं का विवरण	अनुसूची – I के अनुसार तिथि: 24.11.2025																								
ई-नीलामी की स्थिति एवं समय	समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न																								
मौली प्रस्तुत करने की स्थिति और समय	दिनांक: 21.11.2025 पूरू: 400 अपराह्न																								
आरंभिक मूल्या: 46,12,396/- (रुपये) (केवल चिप्यालीस लाख बाराह हजार तीन की चिप्यानें रुपये)																									
* यह मूल्या जिसके नीचे परत/संपत्ति/संपत्तियां नहीं बेची जाएगी																									
बयाना राशि जमा (आपरी का 10%/र. 4,61,240/- (रुपये चार लाख इकसठ हजार दो की चालीस रुपये मात्र)																									
मौली वृद्धि रकम: 1,00,000/- (रुपये) (एक लाख रुपये मात्र)																									
सौदा याति का विवरण और मोबाइल नम्बर की सार्वकिक कमाई, मोबाइल: 7982902266																									
बिक्री के विस्तृत नियमों और कर्ता के लिए, कृपया हमारे अधिकृत ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स इन्फोलेज टैक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल अवगीत https://auction.infolarge.com और www.axisfinance.in पर दिए गए संिक का संदर्भ ले:																									
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिवसीय बिक्री नोटिस।																									
इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत एक ऋण के व्याख्याकर्ता/ओं, गारंटर/ओं और बंधककर्ता/ओं को उपयुक्त स्थिति पर ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में नोटिस के रूप में देना जा सकता है।																									
दिनांक: 05 नवम्बर 2025, स्थान: नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड																								

फॉर्म-जी रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आरम्भण मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड असाधारण और/असाधारण फलनें के निर्माण, बिक्री-खरीद और निर्यात के व्यवसाय और दिल्ली में कारखाना के आधार पर स्थित एस्टेट के क्षेत्र में परामर्श प्रदाता करने हेतु कार्यदाय (विवाद और होलर असाधारण (होपरेट) मालिकों के लिए विवाद सामान्य प्रक्रिया) सिपिन्सफाई, 2016 के सिपिन्स 369 के उप-सिपिन्स(1) के अधीन)	
प्रासादिक विवरण	
1. तैम/सीआईएन/एसएमसी संख्या के साथ कॉर्पोरेट ब्राह्मणता का नाम	मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन/UID1020DL2014PTC271340 ऐन AACMC6196R
2. पंजीकृत कार्यालय का पता	रुचि, कार्यालय: देव हाउस, 260-261, विष्णुना कॉलेजना, इंदर नगर, न्यू इंडेस्ट कॉलोनी, नई दिल्ली, मार्ग, 110065
3. वेबसाइट का पुआराल	तागु नही
4. सांस्थान का विवरण जहां अतल संघीयों का बुलसाल रिवात है	बैंक मोरार, परगना जलानाबाब, तहसील एवं विवा कियायाबाब
5. कॉर्पोरेट ब्रह्मणता के मुख्य उपादेय/सेवाओं की स्थानीय ब्रह्मण	कॉर्पोरेट देवदार के पास अपने मुख्य उपादेय/सेवाओं के लिए कोठे स्थालि श्रमता नही है।
6. सिपिन्स सिपिन्स हन में कोठे ताग मुख्य उपादेय/सेवाओं की माता और मूल	एसएमसी हाइर गे नई जगहान के अनुसार, सिपिन्स रिवात एवं 2024-2025 के तामाग 2112 बर्ष मार्ग भूमि बर्ष नई थो।
7. कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या	कोठे जगहानरी उपायब नही है।
8. कोठे की अतल उपायब सिपिन्स विवरण (अनुसूचियों के ताग), सेवदारों की सुवी, श्रमिकों की बर्ष की पदवाओं हेतु प्रासंगिक सिपिन्स सल्लि अतल विवरण ताग उपायब है:-	विवरण ईमेल clrp.mohanbibr@npvinsolvency.in पर मेनकर प्रात किया जा सकत है।
9. सिपिन्स की बर्ष 25(2)(पा) के तल तामाग आवेदकों के लिए कलता नाग पुआराल के उपायब है	विवरण ईमेल clrp.mohanbibr@npvinsolvency.in पर मेनकर प्रात किया जा सकत है।
10. रुचि की अभिव्यक्ति प्रात करने की अतल सिपि	21-11-2025
11. सांस्थल संकलन आवेदकों की अतलम सुची जारी करने की सिपि	23-11-2025
12. अतलम सुची पर अहलीयत प्रस्तुत करने की अतलम सिपि	28-11-2025
13. सांस्थल तामाग आवेदकों की अतलम सुची जारी करने की तारीख	29-11-2025
14. सांस्थल तामाग आवेदकों को सुचना हागन, मूल्यकन मैट्रिस और तामागन योजनाओं के लिए अनुसूध जारी करने की तारीख	01-12-2025
15. तामागन योजना प्रस्तुत करने की अतलम सिपि	31-12-2025
16. रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आदेश सिपि	clrp.mohanbibr@npvinsolvency.in
17. एसएमसी के रूप में कॉर्पोरेट देवदार की पंजीकरण सिपि का विवरण	एसएमसी के ताग पंजीकृत नही है।
हस्ता/- आईपीई - एनपीसी इन्सोल्वेंसी प्रोसेसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मंजूर इन्सोल्वेंसी प्रोसेसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) इसके निदेशक द्वारा - श्री अजुल उद्यम मालिक समायोजन फोरम के रूप में नियुक्त मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के हमारे में आईसीबीआई बैंकिंगक सं. IBBI/IFE-0040/IPA-2/2022-23/50021 एड्रेस: बिलाक, 31.12.2025 तक पञ्चाधार पाता - 10वीं मंजिल, 1003, गाम्मा नैडी, गाम्मास्ट, एपलीन सेक्टर के पास, बल्लारी, अन्धप्रदेश, गुनवार - 380059 पञ्चाधार के लिए ईमेल - clrp.mohanbibr@npvinsolvency.in	
दिनांक: 06.11.2025 स्थान: नई दिल्ली	

<div></div> <div>Satin Housing Finance Ltd.</div> <div>THE ANSWER IS HOME</div>	<div></div> <div>सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</div> <div>कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज -3 गुडगांव हरियाणा-122016 पंजीकृत कार्यालय: एन।सी.ब्लॉक, कुंदन भवन, आजादपुर कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033</div>	
आज सूचना		
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आसित्यों के प्रतिवित्तिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत।		
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आसित्यों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रचलन शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों), (कथित कर्जदार(रों)) की उन्हें निर्गत सम्बन्धित मांग सूचनाओं जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में उल्लिखित राशियों का पुनर्गुठान करने की कहती हुए 16.10.2025 को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को धारा 13(2) के तहत एक बार पुनः इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में उल्लिखित राशि, कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों, यदि कोई हो, के तहत देय नीचे वर्णित तिथि(यों) से भुगतान तथा/अथवा वसूली की स्थिति तक कथित सूचनाओं में वर्णित के अनुसार मांग सूचना सहित नीचे सूचित राशि तथा का 16.10.2025 तक भुगतान करने के लिए कहती हुए सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्गुठान हेतु प्रतिभूति के रूप में कथित कर्जदार(रों) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास क्रमशः निम्नलिखित आसित्यों वंधक रखी गयी हैं।		
क्र. सं.	कर्जदार(रों)/व्यक्तियों(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि
1	गजराज सिंह पुर सदाय सिंह (कर्जदार)	मांग सूचना की तारीख
	अनीता देवी पती गजराज सिंह	16.10.2025
	2. केसू राम पुर सदाय सिंह	10.08.2025 तक
	3. शर्मिला देवी पती केसू राम,	र. 1,30,60,517/-
	4. सलद्वार सलद्वार पुर गजराज सिंह	(रुपये एक करोड़ तीस लाख साठ हजार चौबीस सैक मात्र)
	5. कुलदेव पुर गजराज सिंह (रह-कर्जदार) राणी निराली: पक्कन नंर - 274, काला कोटिया (15), महेंद्रपुर निकटवर्ती नगरा तैमिक अडवासी, कोटिया सी.ओ, महेंद्रपुर, हरियाणा - 122027 लैन नंबर: LAREI0323-00007511	
प्रोप्रायटी आसित (अचल सम्पत्ति) का विवरण: खेवट संख्या 816, खतीनी संख्या 875, किला संख्या 9/2(2-19) 10(6-9) में स्थित एक आवासीय स्थिति, क्षेत्रफल 9 कनाल 8 मरला, 7/188वर् हिस्सा अवर्त 7 मरला अवर्त 210 वर्ग गज, बकनीता बहरीलत कननी में स्थित, जिला: महेंद्रपुर		
सीमाएं: उत्तर- रमना, दक्षिण- सड़क, पश्चिम- अंनिल पुर खडगुम, पूर्व- सुलेन पुर दरियास सिंह		
पंजीकृत तिथि: 14-12-2020, खती संख्या 01, खंड में। संख्या 3, पुर संख्या 36, विलेख संख्या 1744		
2	केसू राम पुर सदाय सिंह (कर्जदार) 1. दिनेश कुमार पुर केसू राम 2. आशीष आशीष पुर केसू राम 3. शर्मिला देवी पती केसू राम 4. गजराज सिंह पुर सदाय सिंह 5. अनीता देवी पती गजराज सिंह 6. सलद्वार सलद्वार पुर गजराज सिंह 7. कुलदेव पुर गजराज सिंह (रह-कर्जदार) नीली निराली: मकान नंर - 274, काला कोटिया (15), महेंद्रपुर, निकटवर्ती नगरा तैमिक अडवासी, कोटिया सी.ओ, महेंद्रपुर, हरियाणा - 122027 लैन नंबर: LAREI0323-00007565	16.10.2025 10.08.2025 तक र. 1,04,20,508/- (रुपये एक करोड़ चार लाख साठ हजार चौबीस सैक मात्र)
प्रोप्रायटी आसित (अचल संपत्ति) का विवरण: खेवट संख्या 346, खतीनी संख्या 382, 2 कनाल 1 मरला क्षेत्रफल वाली एक आवासीय स्थिति, क्षेत्रफल 1304/4961 हिस्सा यानी 10.7 मरला, ग्राम कोटिया, तहसील कोटिया, जिला महेंद्रपुर, हरियाणा में स्थित पंजीकृत तिथि: 01.02.2021, खती संख्या 01, खंड संख्या 4, पुर संख्या 26.75, विलेख संख्या 2508		
हाथि उक्त कर्जदार उपरोक्त के रूप में सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रत्येक संपत्तियों के विवाद पूरी तरह से उक्त कर्जदारों के स्वामित्व और परिणाम के संक्षेप में आगे की बकायों का। अधिनियम के तहत उक्त कर्जदारों को सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित पत्रवार्ता के विना, बिक्री, पड़े या अन्य विधि के माध्यम से, उपरोक्त संपत्तियों को स्वामानांतरित करने से प्रतिवर्तिता करने की। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।		
स्थान : गुडगांव		
दिनांक : 06.11.2025		
		सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

<div>एमको इंडिया लिमिटेड</div>							
पंजीकृत कार्यालय: 10785, शॉप नं. 7, पी.एफ. इन्डियासिटी रोड, नवी करीम, नई दिल्ली-110055							
कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-53-54, सैक्टर-57, नोएडा-201301, फोन नं 0120-4601500 फैक्स नं 0120-4601548							
CIN : LT4899DL1987PLC029035							
ई-मेल amco.india@gmail.com वेबसाइट www.amcoindialimited.com							
30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखपरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (रुपये लाख में, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर)							
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही			
		(अलेखपरीक्षित) समाप्त तीन माह 30.09.2025	(अलेखपरीक्षित) समाप्त तीन माह 30.06.2025	(अलेखपरीक्षित) संगत समाप्त तीन माह 30.09.2024	(अलेखपरीक्षित) समाप्त छह माह 30.09.2025		
1.	प्रचालनी से कुल आय (निबल)	3,435.58	2,635.02	2,914.56	6,070.60		
2.	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवादनात्मक और /या अतिरिक्तित मरों से पूर्व)	31.27	(13.99)	57.39	17.37		
3.	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादनात्मक और /या अतिरिक्तित मरों के बाद)	31.27	(13.99)	57.39	17.37		
4.	कर परभाव अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादनात्मक और /या अतिरिक्तित मरों के बाद)	26.44	(13.99)	40.28	12.54		
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर परभाव) और अन्य व्यापक आय (कर परभाव) शामिलिता है)	26.44	(13.99)	40.28	12.54		
6.	इक्विटी शेयर मुली (अंकी में)	41.10	41.10	41.10	41.10		
7.	अन्य इक्विटी	3,354.16	3,332.32	3,236.43	3,354.16		
8.	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक) : मुल एवं तनुकुर	0.64	(0.34)	0.98	0.31		
नोट:							
क) उपरोक्त सभी (सूचीयन कथारण एवं प्रकटन अवस्थाकरण) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दायित्व तिमाही एवं छमाही समाप्त तिथियों वर्ष के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 04 नवम्बर, 2025 को आयोजित अपनी संवैधित बैठकों में इन वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा यामित द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कथित तिमाही एवं छमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com पर उपलब्ध है।							
ख) जहां कहीं आवश्यक हुआ पिछली अवधि के परिणामों को पहले बार इंग्र एएस के अनुसूचीक के प्रभाव पर विचार करने के लिए सम्पादित किया गया है।							
कुल एमको इंडिया लिमिटेड							
हस्ता/-							
राजीव गुप्ता							
प्रबंध निदेशक							
डीआईएन : 00028416							

पिनको : 04.11.2025

स्थान : नोएडा, यूपी



भारत सीट्स लिमिटेड

सीआईएन : L34300DL1986PLC023540

पंजीकृत कार्यालय : 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110071

वेबसाइट : www.bharatseats.com ई-मेल : seats@bharatseats.net फोन : +91 9643339870-74

30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही हेतु अलेखपरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रुपय लाख में, विवरण प्रति शेयर डेटा के)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही सभापत			छमाही सभापत		वर्ष सभापत
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		(अलेखपरीक्षित)	(अलेखपरीक्षित)	(अलेखपरीक्षित)	(अलेखपरीक्षित)	(अलेखपरीक्षित)	(लेखपरीक्षित)
1	प्रचालनी से कुल आय	46,129.81	42,812.79	29,137.47	58,942.68	58,117.50	129,241.04
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मरों से पूर्व)	1,329.01	1,234.22	969.18	2,563.23	1,848.04	4,389.61
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मरों के बाद)	1,329.01	1,234.22	969.18	2,563.23	1,848.04	4,389.61
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर परभाव (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मरों के बाद)	990.18	917.59	710.37	1,907.77	1,371.84	3,270.03
5	अवधि हेतु कुल समवेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ (कर परभाव) तथा अन्य समवेशी आय (कर परभाव) शामिलिता है]	991.55	918.96	708.14	1,910.51	1,363.43	3,275.03
6	इक्विटी शेयर मुली	1,256.00	1,256.00	628.00	1,256.00	628.00	1,256.00
7	अन्य इक्विटी लेखांकित वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन मर में दर्शाता गया है।	-	-	-	-	-	10,199.27
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 2/- प्रत्येक का) (आरी और बंद प्रचालनी हेतु) (रु. में)	1.58	1.46	1.13	3.04	2.18	5.21
	(क) मुल (रु.)	1.58	1.46	1.13	3.04	2.18	5.21
	(ख) तनुकुर (रु.)	1.58	1.46	1.13	3.04	2.18	5.21